



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2001/माघ 13, 1922

No. 50]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2001/MAGHA 13, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2001

सं. 2/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा. का. नि. 66(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का उन बातों के सिवाय सशोधन करने के लिए जिन्हें ऐसे सशोधन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय सशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 में, खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(1क) “नियत तारीख” से केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या किसी अनुपूर्वक बजट को संसद में पेश करने के लिए या, यथास्थिति, किसी वित्तीय विधेयक या किसी शुल्क को अधिशोधित करने या किसी शुल्क में वृद्धि करने के लिए किसी विधेयक के संसद में पुरस्थापन के लिए नियत की गई तारीख अभिप्रेत है।”

(1ख) “नियत समय” से केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या किसी अनुपूर्वक बजट को संसद में पेश करने के लिए या, यथास्थिति, किसी वित्तीय विधेयक या किसी शुल्क को अधिशोधित करने या किसी शुल्क में वृद्धि करने के लिए किसी विधेयक के संसद में पुरस्थापन के लिए नियत की गई तारीख अभिप्रेत है।”

3 उक्त नियमों के नियम 100छ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“100छ. माल को हटाने पर निर्बंधन -(1) किसी मुक्त व्यापार जोन में किसी कारखाने से या शत प्रतिशत निर्यातोनमुख्य उपक्रम से किसी माल को, यथास्थिति, ऐसे जोन से बाहर भारत में किसी स्थान पर या ऐसे उपक्रम के परिसर से बाहर किसी स्थान पर, नियत तारीख को नियत समय से 12 00(रात्रि) के बीच तब तक नहीं हटाया जाएगा जबतक, -

(1) निर्धारित इस नियम के उप नियम (2) के अधीन आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है ; और

(ii) इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ए.आर.1-क में इस प्रकार हटाए जाने के लिए निर्धारिती द्वारा समुचित अधिकारी को आवेदन पेश नहीं कर दिया गया है और ऐसे आवेदन की समुचित अधिकारी द्वारा नियत दिन से ठीक पूर्व कार्यकरण दिवस को 5.00 बजे से पूर्व अभिस्वीकृति नहीं दे दी जाती है :

परंतु माल हटाने के लिए ऐसे किसी आवेदन की जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है, इस खंड के अधीन अभिस्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इन निमित्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित निबंधनों, शर्तों और सीमाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है ।

(2) जहां, निर्धारिती उप नियम (1) के अधीन किसी कारखाने या भंडारगृह से माल हटाना चाहता है, वहां वह वर्धित दर पर, यदि कोई हो, जो नियत तारीख से ठीक अगली तारीख से प्रभावी ऐसे माल को लागू हो, शुल्क का संदाय करने का वचन देते हुए, आयुक्त को लिखित में इस निमित्त एक आवेदन कर सकेगा और ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो आयुक्त विहित करे तथा तदुपरि आयुक्त, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है तो ऐसे माल के हटाए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए “माल” में ऐसा माल सम्मिलित है जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है ।” ।

4. उक्त नियमों के नियम 100ज में, उपनियम (1) और उपनियम (2) में दोनों स्थान पर, “नियम 223क, 223ख, 224, 228 और 229” शब्दों अकों और अक्षरों के स्थान पर क्रमशः “नियम 223क, 224, 228 और 229” शब्द, अक और अक्षर रखा जाएगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 173छ के उपनियम (2) के खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) नियत तारीख को नियत समय और 12 00(रात्रि) के बीच किसी उत्पाद शुल्क के माल के हटाए जाने के संबंध में, नियम 224 के उपनियम (1) के उपबंध लागू होंगे ;” ।

6. उक्त नियमों के 223ख का लोप किया जाएगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 224 में, -

(1) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई माल किसी कारखाने या भंडारगृह से नियत तारीख को नियत समय और 12.00(रात्रि) के बीच तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक, -

(i) निर्धारिती इस नियम के उप नियम (2क) के अधीन आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है ; और

(ii) इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ए.आर.1-क में इस प्रकार हटाए जाने के लिए निर्धारिती द्वारा समुचित अधिकारी को आवेदन पेश नहीं कर दिया गया है और ऐसे आवेदन की समुचित अधिकारी द्वारा नियत दिन से ठीक पूर्व कार्यकरण दिवस को 5 00 बजे से पूर्व अभिस्वीकृति नहीं दे दी जाती है ;

परंतु माल हटाने के लिए ऐसे किसी आवेदन की जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है, इस खंड के अधीन अभिस्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इन निमित्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित निबंधनों, शर्तों और सीमाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम और उपनियम (2क) के प्रयोजन के लिए “माल” में ऐसा माल सम्मिलित है जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है ।

(2) उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2क) जहां निर्धारिती उप नियम (2) के अधीन किसी कारखाने या भंडारगृह से माल हटाना चाहता है, वहां वह वर्धित दर पर, यदि कोई हो, जो नियत तारीख से ठीक अगली तारीख से प्रभावी ऐसे माल को लागू हो, शुल्क का संदाय करने का वचन देते हुए आयुक्त को लिखित में इस निमित्त एक आवेदन कर सकेगा और ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो आयुक्त विहित करे तथा तदुपरि आयुक्त, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है तो ऐसे माल के हटाए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।” ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए “माल” में ऐसा माल सम्मिलित है जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है ।” ।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. IV डी-के.उ.शु., तारीख 28 फरवरी, 1944 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्तर्ती संशोधन, वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2001-के.उ.शु.(एन.टी.) तारीख 11.11.2001 द्वारा किए गए 1 [सा.का.नि.17 (प्रतारीख 11.11.2001)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2001

No. 2/2001-Central Excise (N.T.)

G. S. R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 2001.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as said Rules), in rule 2, after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(1a) “appointed date” means the date appointed for presentation of the Annual or any Supplementary Budget of the Central Government to Parliament or for the introduction in the House of People of any Finance Bill or any Bill for imposition or increase of any duty, as the case may be.”

(1b) “appointed time” means the time appointed for presentation of the Annual or any Supplementary Budget of the Central Government to Parliament or for the introduction in the House of People of any Finance Bill or any Bill for imposition or increase of any duty, as the case may be.”

3. For rule 100G of the said Rules, the following rule shall be substituted, namely: -

“100G. Restrictions on removal of goods. – (1) No excisable goods shall be removed from a factory in a free trade zone or from hundred per cent export-oriented undertaking, to any place in India outside such zone or outside the premises of such undertaking, as the case may be, between appointed time to 12.00 (midnight) on the appointed date unless, -

- (i) the assessee has obtained permission of the Commissioner under sub-rule (2) of this rule; and
- (ii) an application for such removal in the Form A.R.1-A specified in Appendix-I to these rules, has been presented by the assessee to the proper officer and such an application has been acknowledged by the proper officer before 5.00 P.M. on the working day immediately preceding the appointed date:

Provided that no such application for the removal of goods which may come into existence at any time after the appointed time shall be acknowledged under

this clause unless the terms, conditions and limitations imposed by the Commissioner in this behalf are complied with.

(2) Where an assessee intends to remove goods from a factory or warehouse under sub-rule (1), he may make an application in this behalf in writing to the Commissioner undertaking to pay duty at the enhanced rate, if any, that may be applicable to such goods with effect from the date immediately following the appointed date and to comply with such conditions as the Commissioner may specify and thereupon the Commissioner may, if he considers it necessary or expedient in the public interest so to do, permit the removal of such goods.

Explanation. - For the purposes of this rule, "goods" include goods which may come into existence at any time after the appointed time."

4. In rule 100H of the said Rules, for the words, figures and letters "rules 223A, 223B, 224, 228 and 229", occurring at both sub-rules (1) and (2), the words, figures and letter "rules 223A, 224, 228 and 229" shall respectively be substituted.

5. For clause (iv) of sub-rule (2) of rule 173G of the said Rules, the following clause shall be substituted, namely: -

"(iv) in respect of removal of any excisable goods between appointed time and 12.00 (midnight) on the appointed date, the provisions of sub-rule (1) of rule 224 shall apply;"

6. Rule 223B of the said Rules shall be omitted.

7. In rule 224 of the said Rules, -

(1) for sub-rule (2), the following sub-rule and Explanation shall be substituted, namely: -

"(2) Notwithstanding anything contained in these rules, no goods shall be removed from a factory or warehouse between appointed time and 12.00 (midnight) on the appointed date unless, -

(i) the assessee has obtained permission of the Commissioner under sub-rule (2A) of this rule.

(ii) an application for such removal in the Form A.R.1 specified in Appendix-I to these rules has been presented by the assessee to the proper officer and such an application has been acknowledged by the proper officer before 5.00 P.M. on the working day immediately preceding the appointed date:

Provided that no such application for the removal of goods which may come into existence at any time after the appointed time shall be acknowledged under this clause unless the terms, conditions and limitations imposed by the Commissioner in this behalf are complied with;

Explanation. - For the purposes of this sub-rule and sub-rule (2A), "goods" include goods which may come into existence at any time after the appointed time." ;

(2) For sub-rule (2A), the following shall be substituted, namely: -

"(2A) Where an assessee intends to remove goods from a factory or warehouse under sub-rule (2), he may make an application in this behalf in writing to the Commissioner undertaking to pay duty at the enhanced rate, if any, that may be applicable to such goods with effect from the date immediately following the appointed date and to comply with such conditions as the Commissioner may specify and thereupon the Commissioner may, if he considers it necessary or expedient in the public interest so to do, permit the removal of such goods."

[F No 201/01/2001-CX. 6]

P. K. SINHA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No.IV D-CE, dated the 28th February, 1944 and subsequently amended by Ministry of Finance(Department of Revenue) notification No.1/2001-CE (N.T.) dated 11th January, 2001 under GSR 17 (E) 11th January, 2001.

